



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 श्रावण 1937 (श10)

(सं0 पटना 910) पटना, वृहस्पतिवार, 6 अगस्त 2015

सं0 04/NULM-01/2013—3455/न0वि0एवंआ0वि0
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

3 अगस्त 2015

विषय – भारत सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) को राज्य के 42 शहरी नगर निकायों में कार्यान्वित किये जाने एवं उस पर अनुमानित व्यय, बिहार शहरी विकास अभिकरण (BUDA) को State Urban livelihood Mission (SULM) नामित करने और मिशन के संचालन हेतु समय-समय पर भारत सरकार से प्राप्त निदेश एवं मार्गदर्शिका के आधार पर कार्यान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति।

भारत सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) को राज्य के 42 शहरी नगर निकायों में लागू करने का निर्णय लिया गया है। NULM योजना में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 75:25 के अनुपात में राशि SULM को विमुक्त की जाएगी। SULM द्वारा समर्पित किये गये Annual Action Plan के आधार पर केन्द्रांश की राशि विमुक्त की जाएगी।

2. केन्द्र प्रायोजित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2014-15 से चरणबद्ध तरीके से NULM योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह योजना राज्य के एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले निकायों तथा सभी जिला मुख्यालयों में लागू किया जाना है। वर्तमान में 42 नगर निकाय इस योजना से अच्छादित है।

3. इस मिशन का उद्देश्य शहरी गरीबों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है जिसके लिए शहरी गरीबों का संस्थागत विकास, बेहतर रोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार, क्षमतावर्द्धन, शहरी बेघरों के लिए आश्रय तथा असंगठित क्षेत्र से जुड़े कामगारों के लिए विभिन्न गतिविधियां कार्यान्वित की जानी है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तकनीकी सलाहकारों/विशेषज्ञों की नियुक्ति, विभिन्न सरकारी विभागों के साथ समन्वय तथा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप द्वारा संचालित किया जाना है।

4. योजना के निम्न छः घटक (Component) हैं :-

- I. सोशल मोबिलाइजेशन एवं इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट (SM&ID)।
- II. कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन (EST&P)।
- III. स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP)।

IV. क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (CB& T) ।

v. बेघरों के लिए आश्रय (SUH)।

VI. शहरी स्ट्रीट भेन्डर्स को सहयोग (SUSV)।

5. योजना की कार्यान्वयन एजेंसी बिहार शहरी विकास अभिकरण (BUDA) है, जो विभाग के अधीन एक निबंधित सोसाइटी के रूप में कार्यरत है।

6. **प्रशासकीय ढांचा** :- SULM एक स्वायत्त संस्था के रूप में विभागीय प्रधान सचिव/सचिव की देख-रेख में योजना की गतिविधि की संचालन करेगी। SULM का प्रबंधन State Mission Director द्वारा किया जाएगा। SULM का मार्गदर्शन, समीक्षा तथा विभिन्न सरकारी विभागों एवं योजना तथा समन्वय निश्चित करने के लिए दो स्तरीय ढांचा शासकीय परिषद एवं कार्यपालिका समिति का प्रावधान है।

7. नगर निकाय स्तर पर नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी की अध्यक्षता में कार्यपालिका समिति का गठन किया जाएगा। तकनीकी सलाहकार समिति का गठन राज्य एवं निकाय स्तर पर किया जाना है।

8. **परिचालन ढांचा** – राज्य स्तर पर State Mission Director, SULM के सहयोग के लिए State Mission Management Unit (SSMU) एवं निकाय स्तर पर City Mission Management Unit (CMMU) की स्थापना की गई है। CMMU का प्रबंधन City Project Officer द्वारा किया जाएगा जिसमें उप नगर आयुक्त स्तर के पदाधिकारी होंगे।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/नगर निकायों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अमृत लाल मीणा,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 910-571+200-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>